

चलो नागल चौधरी 🙏

पहुँचो नागल चौधरी 🙏

🙏 जय श्री गुरु रविदास जी महाराज 🙏

संत परम्परा के महान योगी और परम ज्ञानी संत श्री रविदास जी उन महान सन्तों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्ब्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सन्त रविदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं।

🌸 जाति-जाति में जाति हैं, जो केतन के पात।
रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात ॥
🌸 जन्मजात मत पूछिए, का जात और पात ।
रविदास पूत प्रभु के, कोऊ नहीं जात - कुजात ॥
🌸 ऐसा चाहूँ राज में, मिले सबन को अन्न ।
छोटा बड़ा सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न ॥

श्री गुरु रविदास जी महाराज के 641 वे जन्मोत्सव पर श्री गुरु रविदास आश्रम, नलापूर मोहला, नागल चौधरी, जिला महेंदरगढ़, हरियाणा में आप सादर आमंत्रित है.....

🙏 31 जनवरी 2018 🙏

👉 माल्यार्पण / श्रदासुमन प्रातः 9 बजे ✓✓

🙏 31 जनवरी 2018 🙏

👉 प्रातः 9:30 बजे से बच्चों, वक्ताओं/महानुभावों द्वारा दवारा श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन पर प्रकाश व महिमा का गुणगान । ✓✓

🙏 31 जनवरी 2018 🙏

👉 सत्संग प्रातः 10:30 बजे से नंदराम महाशय जी गुलावला वाले की पार्टी द्वारा महापुरुषों रविदास जी व महापुरुषों का गुणगान किया जायेगा ।

🙏 31 जनवरी 2018 🙏

👉 गुरु जी का लंगर दोपहर 1 बजे से 1 ✓✓

श्री गुरु रविदास जी के सभी भगत अनुयायीयों से निवेदन है की अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर श्री गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त करे । 🙏🙏🙏

आयोजक कर्ता :-- डॉ० भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति व समस्त क्षेत्रवासी नागल चौधरी, जिला महेंदरगढ़,